

राज्य सभा सचिवालय

सूचना

विषय: सचिवालय सहायक (अंग्रेजी/हिन्दी/उर्दू) और आशुलिपिक (अंग्रेजी) के पदों के लिए मुख्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश – विज्ञापन सं. 1/2017 के संबंध में।

विज्ञापन सं. 1/2017 के द्वारा विज्ञापित सचिवालय सहायक (अंग्रेजी/हिन्दी/उर्दू) और आशुलिपिक (अंग्रेजी) के पदों के लिए मुख्य परीक्षाएं क्रमशः 18 जनवरी और 19 जनवरी, 2020 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थी राज्य सभा की वेबसाइट पर इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध लिंक से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, इस संबंध में इन दोनों परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करें:

- (i) अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्रों पर मुद्रित 'सामान्य निर्देशों' को पढ़ें और उक्त परीक्षाओं में उनका कड़ाई से अनुपालन करें।
- (ii) यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि **संसद भवन परिसर में** मोबाइल फोन, चार्जर, चार्जिंग केबल, पॉवर बैंक, पेन ड्राइव, स्मार्ट वाच, हेड/ईयर फोन, ब्लूटूथ उपकरण, लैपटॉप, लैपटॉप चार्जर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/उपकरण **लाने की अनुमति नहीं है।** ऐसी मदों के अनुरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी और तदनुसार अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन इस प्रकार का कोई भी गैजेट/उपकरण संसद भवन परिसर में लेकर न आएँ।
- (iii) इसके अतिरिक्त, परफ्यूम, डिओड्रेंट, शेविंग रेजर, नेल कटर, कैंची, चाकू, ब्रीफकेस, बैग आदि जैसी वस्तुओं को भी संसद भवन परिसर में लाने की अनुमति **नहीं** है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन इस प्रकार की कोई भी वस्तु संसद भवन परिसर में लेकर न आएँ।
- (iv) अभ्यर्थियों को संसद भवन परिसर में प्रवेश के समय कतिपय सुरक्षा जांच/प्रोटोकाल से गुजरना होगा, जिसमें कुछ समय लग सकता है। तदनुसार, जैसा कि प्रवेश पत्र में मुद्रित निर्देशों में उल्लेख किया गया है, **अभ्यर्थियों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर प्रवेश के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय से बहुत पहले और हर हाल में परीक्षा आरंभ होने के समय से कम-से-कम एक घंटा पूर्व संसदीय सौध भवन के स्वागत कार्यालय को अपने पहुंचने की सूचना दें।**

भर्ती प्रकोष्ठ

10.01.2020